



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]  
No. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7 2008/पौष 17, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2008/PAUSA 17, 1929

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

का.आ. 39(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

श्रमजीवी पत्रकार—संपादक [ धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट ]

1. श्री विष्णु नागर,  
कार्यकारी संपादक, कादम्बिनी,  
हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग,  
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग,  
नई दिल्ली-110001.  
निवास : ए-34, नवभारत टाइम्स  
अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1,  
दिल्ली-110091.
2. श्री उत्तम चन्द्र शर्मा  
संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन  
224, सिविल लाइन्स साउथ,  
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251002.  
निवास : 224, सिविल लाइन्स  
साउथ, मुजफ्फरनगर,  
उत्तर प्रदेश-251002.

भारतीय भाषाओं  
के समाचार पत्रों  
के संपादक ।

3. श्री विजय कुमार चोपड़ा,  
संपादक, फिल्मी दुनियां,  
फिल्मी दुनियां, बी-10,  
शिव अपार्टमेंट, 7, राज  
नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स,  
दिल्ली-110054.  
निवास : ए-7, सेक्टर 33,  
नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
4. श्री शीतला सिंह  
संपादक, जनमोर्चा,  
जनमोर्चा इंडस्ट्रियल एस्टेट,  
गोडोपुर, फैजाबाद,  
उत्तर प्रदेश-224001.  
निवास : 9/8/97, बेगम गंज,  
मकबरा, फैजाबाद,  
उत्तर प्रदेश-2240001.
5. सुश्री सुमन गुप्ता  
संपादक, सरयू तट से,  
ए-604, लाल बाग, गवर्नमेंट कालोनी,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
निवास : एल-30, नील विहार कालोनी,  
राम नगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
6. श्री योगेश चन्द्र हलन  
संपादक, एशियन डिफेंस न्यूज  
116-बी, एमआईजी फ्लैट्स,  
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027  
निवास : 116-बी, एमआईजी फ्लैट्स  
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

भारतीय भाषाओं के  
समाचार पत्रों के  
संपादक ।

भारतीय भाषाओं के  
समाचार पत्रों से  
भिन्न समाचार पत्रों  
के संपादक ।

श्रमजीवी पत्रकार संपादकों से भिन्न [ धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट ]

7. श्री के. सिरीनिवास रेड्डी  
विशालआन्ध्रा डेली, मकधूम भवन,  
हिमायतनगर, हैदराबाद-500029  
निवास : फ्लैट नं. ए-6, बीएन रेड्डी  
टावर्स, स्काईलाइन थियेटर के सामने,  
डोमुलगुडा, हैदराबाद-500029.
8. श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गंगुली)  
वर्तमान का नियमित स्वतंत्र  
सहयोगी पत्रकार, 6, जे.बी.एस.  
हल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-700105.  
निवास : 24, जीटी रोड (पश्चिम),  
डाकघर-कोननगर,  
जिला-हुगली-712235, पश्चिमी बंगाल.
9. श्री एम. के. अजीत कुमार  
मुख्य संवाददाता, मातृभूमि  
मातृभूमि, 1/6, आईएनएस बिल्डिंग,  
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
निवास : 224, समाचार अपार्टमेंट्स,  
मयूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091.
10. श्री जोगिन्दर चावला  
स्वतंत्र पत्रकार  
डी-105, मानसरोवर गार्डन,  
नई दिल्ली-110015.  
निवास : डी-105, मानसरोवर गार्डन,  
नई दिल्ली-110015
11. श्री जी. प्रभाकरन,  
दि हिन्दू  
दि हिन्दू, एफ 5, वेंकटेशपुरम कालोनी,  
पुथूर, पालक्कड़-678001, केरल  
निवास : श्री लक्ष्मी, एफ 5,  
वेंकटेशपुरम कालोनी, पुथूर,  
पालक्कड़-678001, केरल
12. श्री कल्याण बरुआ  
पत्रकार, असम ट्रिब्यून  
3/14, आईएनएस बिल्डिंग,  
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
ट्रिब्यून बिल्डिंग, जीएनबी रोड,  
गुवाहाटी-781003 असम ।  
निवास : 92, कला विहार, मयूर विहार  
फेज-1 (एक्सटेंशन), दिल्ली-110091.
13. श्री एस. एन. सिन्हा  
स्वतंत्र पत्रकार  
7/102, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स,  
मयूर विहार-1 (एक्सटेंशन),  
दिल्ली-110096.  
निवास : 7/102, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स  
मयूर विहार-1 (एक्सटेंशन),  
दिल्ली-110096.

श्रमजीवी पत्रकार जो  
भारतीय भाषाओं के  
समाचार पत्रों के  
संपादक न रहे हों ।

श्रमजीवी पत्रकार जो  
भारतीय भाषाओं के  
समाचार पत्रों से भिन्न  
समाचार पत्रों के  
संपादक न रहे हों ।

व्यक्ति, जो समाचार पत्रों के स्वामी हों या समाचार पत्रों के  
कारबार का प्रबंध करते हों [ धारा 5 की उप-धारा (3) के  
खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट ]

14. श्री होरमुसजी नुस्सेखाजी कामा  
दि बाम्बे समाचार प्राइवेट लिमिटेड,  
रेड हाउस, एस. ए. ब्रेलवी रोड,  
होरनीमन सर्किल, फोर्ट,  
मुम्बई-400001.  
निवास : 1ई, नवरोजी अपार्टमेंट्स,  
35, भूलाभाई देसाई रोड,  
मुम्बई-400026.
15. श्री टी. वेंकटराम रेड्डी  
आन्ध्र भूमि,  
डक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स  
लिमिटेड, 36, सरोजनी देवी रोड,  
सिकन्द्राबाद-500003.  
निवास : प्लॉट सं. 54, रोड सं. 12,  
बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034.
16. श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल  
अमरावती मंडल,  
डेली अमरावती मंडल, खापर्डे बगीचा  
अमरावती ।  
निवास : संपादक, अमरावती मंडल,  
मछलीसाथ, साथखिरादी, युक्कुभावंड  
के पास, अमरावती-444601.
17. श्री कुंदन रमन लाल व्यास  
जन्मभूमि प्रवासी वीकली,  
जन्मभूमि भवन, जन्मभूमि मार्ग,  
फोर्ट, मुम्बई-400001  
निवास : 402, भगवान भुवन,  
महालक्ष्मी मंदिर लेन, बी. देसाई रोड,  
मुम्बई-400026.
18. श्री रमेश गुप्ता,  
तेज वीकली,  
8-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली-110002 ।  
निवास : सी-40, गुलमोहर पार्क,  
नई दिल्ली-110049 ।
19. श्री सुशील झलानी  
अरुण प्रभा,  
19, विकास पथ, अलवर-301001,  
राजस्थान ।  
निवास : 19, विकास पथ,  
अलवर-301001, राजस्थान ।

बड़े समाचार पत्रों के  
प्रवर्ग से

मध्यम समाचार पत्रों  
के प्रवर्ग से

छोटे समाचार पत्रों  
के प्रवर्ग से

व्यक्ति, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हों [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

20. श्री वी. एस. चन्द्रशेखर  
कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट  
आफ इंडिया, दि प्रेस ट्रस्ट  
आफ इंडिया लि., पीटीआई.  
बिल्डिंग, 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट,  
नई दिल्ली-110001.  
निवास : सी 114, टेलीकाम सिटी, बी-9/6, सेक्टर-62,  
नोएडा-201307.

व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

21. डा. प्रांजय गुहा ठाकुरती विश्वविद्यालय  
के-33, साउथ सिटी-1, गुडगांव अनुदान आयोग  
द्वारा नामनिर्दिष्ट
22. श्री मिलन कुमार डे भारतीय विधिज्ञ  
अधिवक्ता, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा  
परिषद्, अप्सरा होटल के पीछे, नामनिर्दिष्ट  
डाकघर लालपुर, रांची-834001,  
झारखंड
23. डा. ललित मंगोत्रा विधि साहित्य  
सदस्य, साहित्य अकादमी अकादमी द्वारा  
कार्यकारी बोर्ड, 18-ए, स्टाफ नामनिर्दिष्ट  
क्वार्टर्स, न्यू यूनिवर्सिटी कैम्पस,  
जम्मू विश्वविद्यालय,  
जम्मू-180006.

संसद-सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

24. डा. सेबेस्टियन पाल  
वर्तमान पता-20, डा. आर.पी. रोड,  
नई दिल्ली-110001.  
स्थायी पता-मंजूपिल्ली,  
कोची-682018, केरल
25. श्री भरतसिंह माधव सिंह सोलंकी लोक सभा के  
वर्तमान पता-5, तालकटोरा रोड, अध्यक्ष द्वारा  
नई दिल्ली-110001. नामनिर्दिष्ट
- स्थायी पता-डेडारादा, तालुकर-बोरसाद  
जिला-आनंद, गुजरात-220258.
26. श्री एम. ए. खाराबेला स्वेन  
वर्तमान पता-166, नार्थ एवेन्यू,  
नई दिल्ली-110001.  
स्थायी पता-अंगारगडिया, बालासोर,  
उड़ीसा-756001.

27. श्री यशवंत सिन्हा  
वर्तमान पता-6 कुशक रोड,  
नई दिल्ली.  
स्थायी पता-ग्राम हुपाड़ डाकघर मोरंगी  
जिला हजारी बाग, झारखंड
28. डा. प्रभा ठाकुर  
वर्तमान पता-36, मीना बाग,  
नई दिल्ली-110001.  
स्थायी पता-ए-137, कृष्णा मार्ग,  
श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान।

राज्य सभा के  
सभापति द्वारा  
नामनिर्दिष्ट

[फा. सं. 4/8/2007-प्रेस]

स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2008

**S.O. 39(E).**—In pursuance of sub-section (5) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), read with rules 3 and 4 of the Press Council (Procedure for Nomination of Members) Rules, 1978, the Central Government hereby notifies the names of the following persons nominated as members to the Press Council of India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

**Working Journalists - Editors [nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 5]**

1. Shri Vishnu Nagar  
Executive Editor, Kadambini,  
Hindustan Times Building,  
18-20, Kasturba Gandhi Marg,  
New Delhi - 110001.  
Res: A-34, Nav Bharat Times  
Apartments, Mayur Vihar  
Phase-I, Delhi - 110091.
2. Shri Uttam Chandra Sharma  
Editor, Muzaffarnagar Bulletin  
224, Civil Lines South,  
Muzaffarnagar,  
Uttar Pradesh - 251002.  
Res: 224, Civil Lines South,  
Muzaffarnagar,  
Uttar Pradesh - 251002.
3. Shri Vijay Kumar Chopra  
Editor, Filmi Duniya  
Filmi Duniya, B-10, Shiv  
Apartment, 7, Raj Narain  
Marg, Civil Lines,  
Delhi-110054.

Editors of  
Indian  
Languages  
Newspapers.

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Res: A-7, Sec 33,<br/>NOIDA-201301,<br/>Uttar Pradesh</p> <p>4. Shri Sheetla Singh<br/>Editor, Janmorcha,<br/>Janmorcha Industrial<br/>Estate, Gaddopur, Faizabad,<br/>Uttar Pradesh - 224001.<br/>Res: 9/8/97, Begum Ganj,<br/>Makbara, Faizabad,<br/>Uttar Pradesh - 224001.</p> <p>5. Ms. Suman Gupta<br/>Editor, Saryu Tat Se<br/>A-604, Lal Bagh, Government<br/>Colony, Lucknow, Uttar Pradesh.<br/>Res: L-30, Neel Vihar Colony,<br/>Ram Nagar, Faizabad,<br/>Uttar Pradesh.</p> <p>6. Shri Yogesh Chandra Halan<br/>Editor, Asian Defence News<br/>116-B, MIG Flats, Rajouri<br/>Garden, New Delhi-110027.<br/>Res: 116-B, MIG Flats, Rajouri<br/>Garden, New Delhi-110027.</p>  | <p>Editor of<br/>Indian<br/>Languages<br/>News papers</p> <p>Editor of<br/>Newspapers<br/>other than<br/>Indian Language<br/>Newspapers.</p> | <p>11. Shri G. Prabhakaran<br/>The Hindu<br/>The Hindu, F5,<br/>Venkatesapuram Colony,<br/>Puthur, Palakkad - 678001,<br/>Kerala.<br/>Res: Sreelakshmi, F5,<br/>Venkatesapuram Colony,<br/>Puthur, Palakkad - 678001,<br/>Kerala.</p> <p>12. Shri Kalyan Barooah<br/>Journalist, Assam Tribune<br/>3/14, INS Building,<br/>Rafi Marg, New<br/>Delhi -110001.<br/>Tribune Building, GNB<br/>Road, Guwahati-781003<br/>Assam.<br/>Res: 92, Kala Vihar, Mayur<br/>Vihar Phase-I (Extn.),<br/>Delhi-110091.</p> <p>13. Shri S.N. Sinha<br/>Freelancer<br/>7/102, East End Apartments,<br/>Mayur Vihar, Phase I Ext.<br/>Delhi-110096<br/>Res: 7/1 02, East End Apartments,<br/>Mayur Vihar, Phase I Ext.<br/>Delhi-110096</p> | <p>Working<br/>Journalists not<br/>being editors of<br/>Newspapers<br/>other than<br/>Indian<br/>Languages<br/>Newspapers</p> |
| <p><b>Working Journalists - other than Editors [nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 5]</b></p>   |  |   |   |
| <p>7. Shri K. Sreenivas Reddy<br/>Visala Andhra Daily,<br/>Makdhoom Bhavan,<br/>Himayatnagar,<br/>Hyderabad-500029<br/>Res: Flat No. A-6, BN Reddy<br/>Towers, Opposite Skyline<br/>Theatre, Domulguda,<br/>Hyderabad-500029</p> <p>8. Shri Mihir Gangopadhyay<br/>(Ganguly) Regular<br/>Freelance Contributor of<br/>Bartaman, 6, J.B.S. Halden<br/>Avenue, Kolkatta -700105.<br/>Res: 24, GT Road (West),<br/>P.O. Konnagar, Dist. Hooghly -<br/>712235, West Bengal.</p> <p>9. Shri M.K. Ajith Kumar<br/>Chief Correspondent,<br/>Mathrubhumi Mathrubhumi,<br/>1/6, INS Building, Rafi Marg,<br/>New Delhi - 110001.<br/>Res: 244, Samachar Apartments,<br/>Mayur Vihar Phase - I,<br/>Delhi - 110091.</p> <p>10. Shri Joginder Chawla<br/>Freelancer<br/>D-105, Mansarover<br/>Garden, New Delhi-110015<br/>Res: D-105, Mansarover Garden,<br/>New Delhi-110015</p> | <p>Working Journalists<br/>not being editors<br/>of Indian<br/>Languages<br/>Newspapers.</p>   | <p><b>Persons who own or carry on the business of management of Newspapers [nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 5]</b></p> <p>14. Shri Hormusji Nusserwanji Cama<br/>The Bombay Samachar Private<br/>Limited, Red House, S.A.<br/>Brelvi Road, Horniman Circle,<br/>Fort, Mumbai-400001.<br/>Res: 1E, Navroze Aparnents,<br/>35, Bhulabhai Desai Road,<br/>Mumbai-400026.</p> <p>15. Shri T. Venkatram Reddy<br/>Andhra Bhoomi,<br/>Deccan Chronicle Holdings<br/>Limited, 36, Sarojini Devi<br/>Road, Secunderabad - 500003.<br/>Res: Plot No.54, Road.<br/>No. 12, Banjara Hills,<br/>Hyderabad-500034.</p>  | <p>From big<br/>Newspapers<br/>Category</p>   |

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>16. Shri Anil Jugal Kishore Agrawal<br/>Amravati Mandal, Daily<br/>Amravati Mandal, Khaparde<br/>Bagicha, Amravati.</p> <p>Res.: Editor, Amravati Mandal,<br/>Macchhisath, Sathkhiradi, Near<br/>Yukubkhaband, Amravati-444601.</p>   | <p>From medium<br/>Newspapers<br/>Category</p>               | <p>23. Dr. Lalit Mangotra, Member,<br/>Sahitya Akademi's<br/>Executive Board, 18-A,<br/>Staff Quarters, New University<br/>Campus, University of<br/>Jammu, Jammu - 180006.</p> <p><b>Members of Parliament [nominated under clause<br/>(e) of sub-section (3) of Section 5]</b></p> | <p>Nominated<br/>by Sahitya<br/>Akademi</p>                            |
| <p>17. Shri Kundan Raman Lal Vyas<br/>Janmbhoomi Pravasi Weekly,<br/>Janmbhoomi Bhavan,<br/>Janmbhoomi Marg, Fort,<br/>Mumbai-400001.</p> <p>Res.: 402, Bhagwan Bhuwan,<br/>Mahalaxmi Temple Lane, B.<br/>Desai Road, Mumbai - 400026.</p>   | <p>From small<br/>Newspapers<br/>Category</p>                | <p>24. Dr. Sebastian Paul<br/>Present Address: 20,<br/>Dr. R.P. Road,<br/>New Delhi-110001.</p> <p>Permanent Address:<br/>Moonjapilly,<br/>Kochi - 682018 Kerala.</p>  | <p>Nominated by<br/>the Speaker of<br/>the House of the<br/>People</p> |
| <p>18. Shri Ramesh Gupta<br/>Tej Weekly, 8-B,<br/>Bahadur Shah Zafar Marg,<br/>New Delhi -110002.</p> <p>Res.: C-40, Gulmohar Park,<br/>New Delhi - 110049.</p>  | <p>From small<br/>Newspapers<br/>Category</p>                | <p>25. Shri Bharatsinh<br/>Madhavsinh Solanki<br/>Present Address : 5,<br/>Talkatora Road,<br/>New Delhi-11 0001.</p> <p>Permanent Address:<br/>Dedarda, Talukar -Borsad,<br/>Distt.: Anand, Gujarat, 220258.</p>  | <p>Nominated by<br/>the Speaker of<br/>the House of the<br/>People</p> |
| <p>19. Shri Sushil Jhalani<br/>Arun Prabha,<br/>19, Vikas Path, Alwar - 301001,<br/>Rajasthan.</p> <p>Res.: 19, Vikas Path,<br/>Alwar- 301001, Rajasthan.</p> <p><b>Persons who manage news agencies [nominated<br/>under clause (c) of sub-section (3) of Section 5]</b></p>  | <p>From small<br/>Newspapers<br/>Category</p>                | <p>26. Shri M.A. Kharabela Swami<br/>Present Address: 166,<br/>North Avenue,<br/>New Delhi-11 0001.</p> <p>Permanent Address:<br/>Angargadia, Balasore,<br/>Orissa-756001.</p>   | <p>Nominated by<br/>the Speaker of<br/>the House of the<br/>People</p> |
| <p>20. Shri V.S. Chandrasekar<br/>Executive Editor,<br/>Press Trust of India,<br/>The Press Trust of India Ltd.,<br/>PTI Building, 4, Parliament<br/>Street, New Delhi-110001.</p> <p>Res.: C - 114, Telecom City,<br/>B-9/6, Sector-62,<br/>NOIDA-201307.</p> <p><b>Persons having special knowledge or practical<br/>experience in respect of Education and Science, Law<br/>and Literature and Culture [nominated under clause<br/>(d) of sub-section (3) of Section 5]</b></p> | <p>From small<br/>Newspapers<br/>Category</p>                | <p>27. Shri Yashwant Sinha<br/>Present Address: 6,<br/>Kushak Road,<br/>New Delhi.</p> <p>Permanent Address :<br/>Vili Hupad, P.O. Morangi,<br/>Distt. : Hazaribagh,<br/>Jharkhand</p>   | <p>Nominated by the<br/>Chairman of the<br/>Council of States</p>      |
| <p>21. Dr. Pranjay Guha Thakurta<br/>K-33, South City-I, Gurgaon</p>   | <p>Nominated by<br/>University<br/>Grants<br/>Commission</p> | <p>28. Dr. Prabha Thakur<br/>Present Address: 36,<br/>Meena Bagh,<br/>New Delhi-110001.</p> <p>Permanent Address :<br/>A-137, Krishna Marg,<br/>Shyam Nagar, Jaipur,<br/>Rajasthan.</p>  | <p>Nominated by the<br/>Chairman of the<br/>Council of States</p>      |
| <p>22. Shri Milan Kumar Dey<br/>Advocate, Member, Bar<br/>Council of India, Behind<br/>Apsara Hotel, P.O. Lalpur,<br/>Ranchi-834001, Jharkhand.</p>  | <p>Nominated by<br/>Bar Council<br/>of India</p>             |  |  |

[F. No. 4/8/2007-PRESS]

STUTI KACKER, Jt. Secy.

74-11/10-8-2